



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14—जनवरी 20, 2017 (पौष 24, 1938)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14—JANUARY 20, 2017 (PAUSA 24, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो)

नई दिल्ली—110066, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

सं. 35/02/13/प्रशा.1(बी)/रा.अ.रि. ब्यूरो—महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो श्रीमती एस. इंदिरा सुधा, निरीक्षक (अं. छा.) को पे बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— में 4,600/— रु. के ग्रेड वेतन में जमा 800/— रु. प्रतिमाह के विशेष भत्ते (पूर्व संशोधित) के वेतनमान के साथ दिनांक 24.09.2015 से केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (CFPB), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय में उप अधीक्षक (अं. छा.) समूह—ख राजपत्रित पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. पी. शर्मा, संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशा.)

सं. 35/02/13/प्रशा.1(बी)/रा.अ.रि. ब्यूरो—महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, निरीक्षक (अं. छा.) को पे बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— में 4,600/— रु. के ग्रेड वेतन में जमा 800/— रु. प्रतिमाह के विशेष भत्ते (पूर्व संशोधित) के वेतनमान के साथ दिनांक 18.10.2013 से केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (CFPB), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय में उप अधीक्षक (अं. छा.) समूह—ख राजपत्रित पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. पी. शर्मा, संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशा.)

सं. 35/02/13/प्रशा.1(बी)/रा.अ.रि. ब्यूरो—महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो श्री रविन्द्र कुमार, निरीक्षक (अं. छा.) को पे बैण्ड-2, रु. 9,300—34,800/- में 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन में जमा 800/- रु. प्रतिमाह के विशेष भत्ते (पूर्व संशोधित) के वेतनमान के साथ दिनांक 18.10.2013 से केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (CFPB), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय में उप अधीक्षक (अं. छा.) समूह-ख राजपत्रित पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. पी. शर्मा, संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशा.)

सं. 35/02/13/प्रशा.1(बी)/रा.अ.रि. ब्यूरो—महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो श्री परमिन्द्र सिंह गुलाटी, निरीक्षक (अं. छा.) को पे बैण्ड-2, रु. 9,300—34,800/- में 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन में जमा 800/- रु. प्रतिमाह के विशेष भत्ते (पूर्व संशोधित) के वेतनमान के साथ दिनांक 28.04.2014 से केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (CFPB), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय में उप अधीक्षक (अं. छा.) समूह-ख राजपत्रित पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. पी. शर्मा, संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशा.)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

सं. 13017/11/2012-अ.भा.से.-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतदद्वारा डॉ. रतन यू केलकर, आईएएस (केएल:2003) को वैयक्तिक आधार पर 18.12.2016 से दो वर्षों की अवधि के लिए केरल संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

दिनांक 14 दिसम्बर 2016

सं. 13017/18/2016-अ.भा.से.-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पंजाब और गुजरात सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतदद्वारा श्री सुप्रीत सिंह गुलाटी, आईएएस (पीबी:2008) को श्रीमती एस. छकछुअक, आईएएस (जीजे:2008) से विवाह करने के आधार पर पंजाब संवर्ग से गुजरात संवर्ग में स्थानांतरण करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

दिनांक 16 दिसम्बर 2016

सं. 13017/08/2013-अ.भा.से.-I—केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय एवं उत्तराखण्ड सरकार की सहमति से श्री लालरिनलियाना फनई, आईएएस (यू.के : 97) को उत्तराखण्ड संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग के मिजोरम सेंगमेंट में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 03.02.2017 के बाद दो वर्षों के लिए बढ़ाए जाने का अनुमोदन प्रदान करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

सं. 39/2016/ए-42011/3/2012-ई-I—राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार भल्ला, आईएएस (एएम:84) को दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 (अपराहन) से अगले आदेशों तक के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन डीजीएफटी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग श्री अजय कुमार भल्ला, डीजीएफटी द्वारा किया जाएगा।

जी. बी. उपाध्याय, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

सं. पी. एफ. (3020)/—ई.1—राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश सं. 5/2/2015—रा.भा. (सेवा) दिनांक 17.03.2016 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती विजय नागपाल को उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में चयन सूची वर्ष 2011-12 को वेतन बैंड-3 अर्थात् 15,600—39,100/— रुपए + 5,400/— रुपए के ग्रेड वेतन संशोधित पे मैट्रिक्स लेवल-10 में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

संदीप सक्सेना, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
(राष्ट्रीय मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र)

नोएडा-201309, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

सं. ए-11019/11/2014(13)—एनएमआरएफ(स्था.)—डॉ. एम रवीन्द्रनाथ, वैज्ञानिक 'ई' एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, नोएडा ग्रुप 'ए' राजपत्रित, सामान्य केंद्रीय सेवा को दिनांक 30 नवम्बर 2016 अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

एन. के. भगत, निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-11019/11/2014(32)—एनएमआरएफ(स्था.)—डॉ. सोमेश्वर दास, वैज्ञानिक 'जी' एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, नोएडा ग्रुप 'ए' राजपत्रित, सामान्य केंद्रीय सेवा को दिनांक 30 नवम्बर 2016 अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

एन. के. भगत, निदेशक (प्रशासन)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसंबर 2016

सं. ए-38013/1/2016- स्थापना—श्री जगदीश कुमार, अनुभाग अधिकारी, संस्कृति मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 30 नवंबर, 2016 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मनोज देहरी, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2016

सं. एफ.1-18/2004-एनवाईकेएस (वाल्सूम-III)—नेहरू युवा केंद्र संगठन नियमावली के नियम 9 (ख) के अनुसरण में श्रीमती रूपा गांगुली, संसद सदस्य (राज्य सभा) को भारत सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से संसद सदस्य, राज्य सभा के लिए आरक्षित रिक्ति पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के शासी मंडल में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. श्रीमती रूपा गांगुली, संसद सदस्य (राज्य सभा) का कार्यकाल तीन वर्ष की कुल अवधि की शेष बची अवधि के लिए अर्थात् 29.07.2017 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

3. यह नेहरू युवा केंद्र संगठन के नियमों और उप नियमों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन होगा।

जी एस चित्रा, अवर सचिव

दिनांक 26 दिसम्बर 2016

सं. एफ.1-18/2004-एनवाईकेएस (वाल्सूम-III) (पार्ट)—नेहरू युवा केंद्र संगठन नियमावली के नियम 9 (ख) के अनुसरण में श्री दिनेश प्रताप सिंह को भारत सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की श्रेणी की रिक्ति पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के शासी मंडल में उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. श्री दिनेश प्रताप सिंह का कार्यकाल तीन वर्ष की कुल अवधि की शेष बची अवधि के लिए अर्थात् 12.03.2018 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

3. यह नेहरू युवा केंद्र संगठन के नियमों और उप नियमों के अन्य प्रावधानों के अध्याधीन होगा।

जी एस चित्रा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

सं. 17014/32/97-एससीडी-IV—राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के संगम जापन के अनुच्छेद 52(iv) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री सुनील दत्त अवस्थी, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली को एनएसकेएफडीसी की दिनांक 30.11.2015 की समसंख्यात्मक अधिसूचना के तहत उनके निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नामित श्री संजय सिंह, सहायक महा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, के स्थान पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एम. जैना, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

सं. ईआरबी-1/2016/2/54—राष्ट्रपति जी, श्री ए. के. तिवारी, एसएजी/आईआरएसएमई को 23.12.2016 के पूर्वाहन से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार (पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU)

New Delhi-110066, the 21st December 2016

No. 35/2/2013-Ad.I(B)/NCRB—The Director General, National Crime Records Bureau is pleased to appoint Smt. S. Indira Sudha, Inspector (Finger Print) as Deputy Superintendent (Finger Print), Group-B Gazetted Post in Central Finger Print Bureau, NCRB, MHA in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- plus Special Allowance of Rs. 800/- p.m. (pre-revised) with effect from 24.09.2015.

M. P. SHARMA, Joint Assistant Director (Admn.)

No. 35/2/2013-Ad.I(B)/NCRB—The Director General, National Crime Records Bureau is pleased to appoint Shri Surender Pratap Singh, Inspector (Finger Print) as Deputy Superintendent (Finger Print), Group-B Gazetted Post in Central Finger Print Bureau, NCRB, MHA in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- plus Special Allowance of Rs. 800/- p.m. (pre-revised) with effect from 18.10.2013.

M. P. SHARMA, Joint Assistant Director (Admn.)

No. 35/2/2013-Ad.I(B)/NCRB—The Director General, National Crime Records Bureau is pleased to appoint Shri Ravinder Kumar, Inspector (Finger Print) as Deputy Superintendent (Finger Print), Group-B Gazetted Post in Central Finger Print Bureau, NCRB, MHA in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- plus Special Allowance of Rs. 800/- p.m. (pre-revised) with effect from 18.10.2013.

M. P. SHARMA, Joint Assistant Director (Admn.)

No. 35/2/2013-Ad.I(B)/NCRB—The Director General, National Crime Records Bureau is pleased to appoint Shri Parminder Singh Gulati, Inspector (Finger Print) as Deputy Superintendent (Finger Print), Group-B Gazetted Post in Central Finger Print Bureau, NCRB, MHA in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- plus Special Allowance of Rs. 800/- p.m. (pre-revised) with effect from 28.04.2014.

M. P. SHARMA, Joint Assistant Director (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 8th December 2016

No.13017/11/2012-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Kerala and Karnataka, the Central Government hereby accords approval for extension of tenure of inter cadre deputation of Dr. Rathan U Kelkar, IAS (KL:2003) from Kerala cadre to Karnataka cadre for a period of two years beyond 18.12.2016 on personal grounds.

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

The 14th December 2016

No.13017/18/2016-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Punjab and Gujarat, the Central Government hereby transfers Shri Supreet Singh Gulati, IAS (PB:2008) from Punjab cadre to Gujarat cadre on grounds of marriage to Smt. S. Chhakchuak, IAS (GJ:2008).

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

The 16th December 2016

No.13017/08/2013-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of Ministry of Home Affairs and State Government of Uttarakhand, the Central Government hereby accords approval for extension of tenure of inter cadre deputation of Shri Lalrinliana Fanai, IAS (UK:97) from Uttarakhand cadre to Mizoram Segment of AGMUT cadre for a further period of two years beyond 03.02.2017.

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 20th October 2016

No. 39 /2016 (A-42011/3/2012-E-I): The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Bhalla, IAS (AM:84) as Director General, Directorate General of Foreign Trade under the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from 20.10.2016 (A/N) and until further orders.

2. Powers exercised by the DGFT under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 shall be exercised by Shri Ajay Kumar Bhalla, DGFT.

G. B. UPADHYAY, Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 26th December 2016

No. PF(3020)-E.I—In pursuance of Department of Official Language's Order No. 5/2/2015-OL dated 17.03.2016, the President is pleased to appoint Smt. Vijay Nagpal to the post of Assistant Director (OL) on regular basis in the Department of Food & Public Distribution in the pre-revised pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (PB-3) revised to Level 10 of the Pay Matrix in the revised pay structure against the Vacancy for the Calendar Year 2011-12.

SANDEEP SAXENA, Under Secretary

MINISTRY OF EARTH SCIENCES
(NATIONAL CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTING)

Noida-201309, the 8th December 2016

No. A-11019/11/2014(13)-NMRF(Estt.)—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Dr. M Ravindranath, Scientist 'E' (Group A, Gazetted, General Central Services) is retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th November, 2016.

N. K. BHAGAT, Director (Admin.)

No. A-11019/11/2014(32)-NMRF(Estt.)—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Dr. Someshwar Das, Scientist 'G' (Group A, Gazetted, General Central Services) is retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th November, 2016.

N. K. BHAGAT, Director (Admin.)

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 9th December 2016

No. A -38013/1/2016- Estt. Shri Jagdish Kumar, Section Officer, Ministry of Culture has retired from service w.e.f. 30.11.2016 (AN) on attaining the age of superannuation.

MANOJ DEHURY, Under Secretary

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 22nd December 2016

No.F.1-18/2004-NYKS(Vol.III)—In pursuance of Rule 9(b) of Rules of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Smt. Roopa Ganguly, Member of Parliament (Rajya Sabha) is hereby nominated as member by the Government of India to the Board of Governors of Nehru Yuva Kendra Sangathan against one vacancy meant for Rajya Sabha, Member of Parliament with immediate effect.

2. The term of membership of Smt. Roopa Ganguly, Member of Parliament (Rajya Sabha) will be for the unexpired portion of the three year term left viz. upto 29.07.2017 or till further orders, whichever is earlier.

3. This will be subject to other provisions of the Bye-laws and Rules of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

G. S. CHITRA, Under Secretary

The 26th December 2016

No.1-18/2004-NYKS(Vol.III)(Pt.).—In pursuance of Rule 9(b) of Rules of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Shri Dinesh Pratap Singh is hereby nominated as the Vice Chairperson by the Government of India to the Board of Governors of Nehru Yuva Kendra Sangathan against one vacancy under eminent persons category with immediate effect.

2. The term of membership of Sh. Dinesh Pratap Singh will be for the unexpired portion of the three year term left viz. upto 12.03.2018 or till further orders, whichever is earlier.

3. This will be subject to other provisions of the Bye-laws and Rules of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

G. S. CHITRA, Under Secretary

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 14th December 2016

No.17014/32/97-SCD-IV. In pursuance of Articles 52 (iv), of Articles of Association of National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi, the President is pleased to appoint Shri Sunil Dutt Awasthi, Assistant General Manager, State Bank of India, New Delhi as Official Director on the Board of National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) in place of Shri Sanjay Singh, Assistant General Manager, State Bank of India, New Delhi who was nominated as Official Director on the Board of NSKFDC vide Notification of even number dated 30.11.2015, with immediate effect and until further orders.

M. JENA, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th December 2016

No. ERB-I/2016/2/54—The President is pleased to appoint Shri A.K. Tiwari, SAG/IRSME as Adviser (Environment & Housekeeping Management), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from forenoon of 23.12.2016.

R. K. VERMA, Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017
www.dop.nic.in